

वॉल्यूम 8

नमस्कार DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट परिवार,

मैं एक ऐसे जिले का हिस्सा होने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जहां हमारे विद्यार्थियों को सफल होते हुए देखने के लिए कर्मचारी अमले और समुदाय सामूहिक रूप से निवेशित होते हैं। जैसा कि मैंने DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट (DCSD) की पूरी यात्रा की, भले ही कोई भी प्रान्त रहा हो, मैंने अपने छात्रों के प्रति एक साझा प्रेम, जुनून, और प्रतिबद्धता को देखा। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हम इस ऋतु के दौरान शीर्ष की ओर बढ़ना जारी रखेंगे क्योंकि यह जिला एक विशाल परिवार है। *मिलजुलकर, हम कर सकते हैं, और मिलजुलकर हम सफल होंगे और उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे।*

Region VII के साथ Field में

Field Day का उद्देश्य क्षेत्रीय अक्षीक्षकों के साथ उस दिन को व्यतीत करना और उनके काम को प्रत्यक्ष रूप से देखना है। यह निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय कार्यालय किस प्रकार सुधारों के साथ आवश्यक चीजों की पूर्ति कर सकता है। इस सप्ताह, मुझे McNair High School और Cedar Grove High School संकुलों में Region VII में Dr. Rodney Swanson और उनकी अद्भुत टीम से जुड़कर हर्ष का अनुभव हुआ। शिक्षा के कुछ सच्चे नायकों से मेरी भेंट हुई! इस प्रान्त में कुछ "एट-प्रॉमिस" स्कूल हैं, लेकिन उनके साथ सच्चे लीडर्स हैं और ये स्कूल और ज्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। मुझे उनका छात्रों का और एक-दूसरे की सराहना करने का तरीका पसन्द है। "कायापलट करने वाली" अगुआई करना एक कठोर परिश्रम है, लेकिन ये लीडर्स एक-दूसरे को थामकर ऊंचाई की ओर ले जाने और श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्चुअल क्लासेज़ का दौरा करने के दौरान जहां शिक्षकों द्वारा उनके विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित विषय में प्रवीणता के साथ सहायता कर रहे थे, मैं उस अनुकरणीय शिक्षा को देखकर उत्साहित थी जो हमारे छात्रों को दी जा रही है। Region VII का नारा है, "हम सफलता से गइराई से जुड़े हुए हैं - जहां विद्यार्थी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हम सिखाते हैं, सीखते हैं, नेतृत्व करते हैं, और सेवा प्रदान करते हैं।" Region VII को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई, और इस महान कार्य को जारी रखें!

Narvie J. Harris एलीमेन्टरी थीम स्कूल

- शीर्षक। रिवाई स्कूल पिछले दो वर्ष से निरन्तर प्रगति कर रहा है
- दो-अंकीय CCRPI वृद्धियां

Kelley Lake एलीमेन्टरी स्कूल

- दो-अंकीय CCRPI वृद्धियां/Beating the Odds स्कूल

DESA

- Beating the Odds School

Robert Shaw एलीमेन्टरी थीम स्कूल

- शीर्षक | विशिष्ट स्कूल

Cedar Grove हाई स्कूल

- फुटबॉल राज्य विजेता (2018 एवं 2019)
- National BETA Club विशिष्टता स्कूल

4-सितारा क्लाइमेट रेटिंग स्कूल

- Cedar Groves ES
- Kelley Lake ES
- Obama Magnet

Barack H. Obama एलीमेन्टरी मैग्नेट स्कूल ऑफ़ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी

- Johnathan Hines, प्री-के शिक्षक, वर्ष के राज्यव्यापी शिक्षक
- Spanish इमर्शन कार्यक्रम

पाठ्यक्रम एवं अनुदेश (C&I) के साथ Division Popin दौरा

Stacy Stepney और पाठ्यक्रम एवं अनुदेश टीम को उनके Fernbank Science Center के अविश्वसनीय भ्रमण के लिए विशेष धन्यवाद। शैक्षणिक सफलता के लिए C&I के टीमवर्क और जुनून से मैं अत्यन्त प्रभावित हुई। उनके पास हमारे विद्यार्थियों को सबसे उच्चतम ऊचाईयों पर ले जाने के लिए एक सुदृढ़ परिकल्पना है, जिसमें जिला-व्यापी STEM और STEAM कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे पास अपने विद्यार्थियों के समक्ष पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है और मुझे आशा है कि हमारे DCSD समुदाय Fernbank Science Center द्वारा उपलब्ध कराये गए शानदार अवसरों का लाभ उठाता है! कृपया <http://www.fernbank.edu/> पर जाएं।

Multiple System of Supports (MTSS) हमारे परिवारों के लिए एक अन्य उत्कृष्ट संसाधन है। शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण संबंधी और अधिक जानकारी के लिए

कृपया <https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play> पर जाएं।

पिछले सप्ताह, हमारे साथ पोषाहार सेवाओं और खराब खाद्य गुणवत्ता की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी।

जिले ने एक क्षमायाचना [https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-](https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/)

[quality/](https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/) जारी की है और मैं अपने विद्यार्थियों और परिवारों से क्षमा मांगना चाहती हूँ। DeKalb काउंटी स्कूल

डिस्ट्रिक्ट (DCSD) हमारे छात्रों के लिए मापदण्डों और सेवाओं हेतु प्रतिबद्ध है। एक अनुस्मारक के रूप में,

भोजनावकाश के लिए सभी DCSD स्कूल सोमवार, बुधवार, और शुक्रवार को 11:00 पूर्वाह्न से 1:00 अपराह्न

तक खुले रहते हैं। अपडेट्स के लिए कृपया DCSD की पोषाहार संबंधी वेबसाइट पर जाएं। आप अपने आस-पास

निःशुल्क खाद्य संसाधनों का पता लगाने के लिए <https://bit.ly/3j9nlwf> पर क्लिक करके भी DCSD भोजन

वितरण के साइट-मैप को खोज सकते हैं।

जैसे ही हम स्कूल के तृतीय सप्ताह में प्रवेश करते हैं, मैं हमारे परिवारों, विद्यार्थियों, और समुदाय के साथ

वार्तालाप को जारी रखना चाहती हूँ। NAACP DeKalb काउंटी को, Dr. Morley के साथ Courageous

Conversation पैनल को, और Mrs. Vickie Turner के साथ टाउन हॉल और साथ ही अन्य लोगों को मेरा

धन्यवाद। DeKalb Community द्वारा इस सप्ताह शिक्षाप्रद और प्रभावशाली परिचर्चाओं का पक्ष-समर्थन किया

जाता है। आपका सप्ताहांत शानदार हो और यह याद रखें कि टीमवर्क हमारे सपनों को सच बनाता है और DeKalb

काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, हम साथ-साथ सबसे बेहतर हैं!

आपकी #1 चीयरलीडर,

Mrs. Cheryl Watson-Harris, अधीक्षक